



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य और

सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त उपाय पेश कर रही है

सिटी प्रांतीय निर्देशों की पालना करते हुए बहाली की संशोधित स्टेज 2 में दाखिल हो रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 अक्टूबर, 2020) – प्रांत द्वारा आज की गई घोषणा के बाद और पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह के मुताबिक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए संशोधित स्टेज 2 में दाखिल हो रही है।

शनिवार, 10 अक्टूबर, 2020, सुबह 12:01 बजे से, कम से कम 28 दिनों तक के लिए, नीचे दिए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपाय लागू किए जाएंगे और लगातार इनकी समीक्षा की जाएगी:

रेस्टोरेंट्स, बार्स और भोजन संबंधी संस्थान

शनिवार, 10 अक्टूबर, 2020, सुबह 12:01 बजे से, फूड कोर्ट्स सहित, रेस्टोरेंट्स बार्स और भोजन संबंधी संस्थान, कोविड-19 के फैलाव पर नियंत्रण पाने में मदद के लिए, इनडोर डाइनिंग सेवा बंद करेंगे। अभी भी टेकआउट (भोजन घर ले जाने) और आउटडोर डाइनिंग की अनुमति होगी।

हालांकि कई रेस्टोरेंट्स, बार्स और भोजन संबंधी संस्थानों ने पहले ही पील के निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने व्यवसाय के तरीकों को बदलने जैसे कदम उठाए हैं। पील में कोई भी कारोबारी, जो प्रांत की अथवा पील पब्लिक हेल्थ की सलाह का पालन नहीं करता, वह हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रोमोशन एक्ट (Health Protection and Promotion Act) के तहत आदेशों के अधीन होगा।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन निवासियों को सलाह देती है कि वे टेकआउट जैसे विकल्पों का लाभ लेकर, लोकल फूड सर्विस संस्थानों को सहयोग करें।

बंद होने वाले अतिरिक्त स्थान

शनिवार, 10 अक्टूबर, 2020, सुबह 12:01 बजे से, ये स्थान बंद किए जाएंगे:

- सिटी, रेक्रिएशन फैसिलिटीज के अंदर फिटनेस सहूलियतों सहित, इनडोर जिम और फिटनेस केंद्र (जैसे एक्सरसाइज क्लासेज और वज़न और एक्सरसाइज वाले कमरे)
- सिटी की फैसिलिटीज के स्थानों सहित, परफॉर्मिंग आर्ट्स केंद्र और स्थान
- कैसिनोज, बिंगो हॉल और गेम्स वाले अन्य संस्थान
- इनडोर सिनेमा
- रेसिंग वाले स्थान में दर्शकों के क्षेत्र



- म्यूजियमों, गैलरीज, चिड़ियाघरों, साइंस केंद्रों, लैंडमार्क आदि में इंटरएक्टिव प्रदर्शनियों का निजी संपर्क के अधिक जोखिम वाली प्रदर्शनियां

कम की गई क्षमता सेवाएं

शनिवार, 10 अक्टूबर, 2020, सुबह 12:01 बजे से, निम्नलिखित क्षमता सीमाएं लागू होंगी:

- टूर और गाइड सेवाएं, इनडोर 10 व्यक्तियों तक और आउटडोर 25 व्यक्तियों तक सीमित होंगी
- रियल एस्टेट के ओपन हाउस में, इनडोर 10 व्यक्ति ही जा पाएंगे
- व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाना और व्यावहारिक मार्गदर्शन, इनडोर 10 व्यक्तियों तक और आउटडोर 25 व्यक्तियों तक सीमित है, स्कूलों, बाल देखभाल केंद्रों, यूनिवर्सिटीज, एप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी कॉलेजों और प्राइवेट कैरियर कॉलेजों को इस नियम से छूट है
- मीटिंग और कार्यक्रम वाले स्थान, इनडोर 10 व्यक्तियों तक और आउटडोर 25 व्यक्तियों तक सीमित हैं
- टीम स्पोर्ट्स, केवल ट्रेनिंग सेशनो तक ही सीमित होंगे (कोई खेल या मुकाबले नहीं होंगे)
- इस वीकेंड होने वाले शादी के रिसेप्शन, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी नियमों के मुताबिक किए जा सकते हैं। मंगलवार, 13 अक्टूबर, 2020, सुबह 12:01 बजे से, शादी के रिसेप्शनो पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी अपडेट किए उपाय लागू होंगे, जिनमें शामिल हैं, कार्यक्रम वाले स्थानों पर नए जनसमूह, इनडोर 10 व्यक्तियों तक और आउटडोर 25 व्यक्तियों तक सीमित होंगे।

सामाजिक जनसमूह संबंधी सीमाएं और सामाजिक दूरी

ब्रैम्पटन और पील रीजन (Peel Region) में, सभी सामाजिक जनसमूह और आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम, इनडोर 10 व्यक्तियों तक और आउटडोर 25 व्यक्तियों तक सीमित होंगे, जहां शारीरिक दूरी रखी जा सकती हो।

कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए, पील पब्लिक हेल्थ, दूसरों से संपर्क को कम करने और जनसमूहों को छोटा रखने और आपके सामाजिक दायरे को, केवल आपके सगे पारिवारिक सदस्यों या जरूरी देखभालकर्ताओं तक सीमित रखने की सलाह देती है। इस थैंक्सगिविंग वीकेंड के अवसर पर, पील पब्लिक हेल्थ सलाह देती है कि आप अपने सगे पारिवारिक सदस्यों के साथ ही जश्न मनाएं।

अकेले रहने वाले लोगों को या जो अपने सगे पारिवारिक सदस्यों से बाहर के लोगों के संपर्क में जाने का चयन करते हैं, उन्हें पील पब्लिक हेल्थ सलाह देती है कि जनसमूह की संख्या सीमित करें, इकट्ठे रहने का समय कम करें, शारीरिक दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनें और हाथ धोएं। यदि आप ठीक नहीं हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर मिलने की बजाय, आभासी (वर्चुअल) तौर पर एकत्र हों, टेस्ट करवाएं और घर में दूसरों से बिल्कुल अलग रहें।

ब्रैम्पटन कोविड-19 एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) के अंतर्गत, शारीरिक दूरी के विनियम का पालन न करने वाले लोगों पर, उल्लंघन के प्रत्येक अपराध के लिए न्यूनतम \$500 का और अधिकतम \$100,000 तक का जुर्माना लग सकता है।



इस बाइ-लॉ के अंतर्गत आने वाले म्युनिसिपल विनियमों के मुताबिक:

- प्रत्येक व्यक्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी पर होने के समय, हर दूसरे व्यक्ति से कम से कम 2.0 मीटर की दूरी रखेगा, उन व्यक्तियों को छोड़कर, जो एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं
- कोई भी कारोबारी, किसी भी व्यक्ति को, हर दूसरे व्यक्ति से 2.0 मीटर से कम दूरी पर बैठने या खड़े होने देने की अनुमति नहीं देगा, चाहे वे व्यापारिक संस्थान के अंदर हों या बाहर, उन व्यक्तियों को छोड़कर, जो एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं या कारोबारी के कर्मचारी।

इसका पालन न होने के बारे में रिपोर्ट करने के लिए, निवासी और कारोबारी 311 पर फोन कर सकते हैं।

आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ

आवश्यक चेहरा ढकना (मैनडेटरी फेस कवरेजिंग्स) बाइ-लॉ (Mandatory Face Coverings By-law) के अंतर्गत, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना या चेहरे को ढकना जरूरी है। सार्वजनिक संस्थानों और कारोबारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नियंत्रण वाली इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, सभी लोग मास्क पहन रहे हैं या चेहरा ढक रहे हैं।

बाइ-लॉ कुछ व्यक्तियों को छूट देता है। इनमें शामिल हैं, वे व्यक्ति, जो मेडिकल कारणों से मास्क नहीं पहन सकते या चेहरा नहीं ढक सकते; दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे; एमरजेंसी ऑर्डर्स (Emergency Orders) के अनुसार एथलेटिक गतिविधि में शामिल व्यक्ति। अधिक जानकारी के लिए, brampton.ca/masks पर जाएं।

इसका पालन न होने के बारे में रिपोर्ट करने के लिए, निवासी और कारोबारी 311 पर फोन कर सकते हैं।

कोविड-19 टेस्ट और टेस्टिंग स्थान के बारे में जानकारी

लोग, पूरे पील में फार्मसी और असेसमेंट सेंटरों सहित, कई स्थानों पर टेस्ट करवा सकते हैं। मंगलवार, 6 अक्टूबर से, सभी असेसमेंट सेंटरों और चुनिंदा फार्मसीज में टेस्ट करवाने के लिए मुलाकातें बुक करवाने की जरूरत है। अपना टेस्ट बुक करने के लिए असेसमेंट सेंटर या फार्मसी को संपर्क करें।

पील और ब्रैम्पटन में कोविड-19 टेस्टिंग स्थानों की सूची के लिए, प्रांत की [वेबसाइट \(website\)](#) पर जाएं।

ब्रैम्पटन में विलियम ओसलर हेल्थ सिस्टम (ओसलर) टेस्टिंग

साउथ फ्लैचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में ओसलर्स कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर

अब ओसलर, किसी भी उस व्यक्ति को ऑनलाइन और फोन पर बुकिंग करवाने की पेशकश कर रहा है, जो कोविड-19 टेस्ट प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। ब्रैम्पटन में, साउथ फ्लैचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स (South Fletcher's Sportsplex) में ओसलर्स कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर



(Osler's COVID-19 Testing Centre), रोज़ाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। मुलाकातें, उपलब्धता के आधार पर बुक की जाती हैं।

ओसलर्स कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर में टेस्ट बुक करने के लिए, नीचे दिए विकल्पों में से एक चुनें।

- ऑनलाइन: www.williamoslerhs.ca/coronavirus पर जाएं
- फोन: 905.487.1249 पर फोन करें

सुबह 8:00 बजे और शाम 6:00 बजे, सप्ताह में 7 दिन।

कृपया ध्यान दें: ओसलर ने व्यक्तिगत मुलाकात बुकिंग बंद कर दी है।

पील मेमोरियल सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड वेलनेस में, ओसलर्स कोविड-19, कोल्ड एंड फ्लू क्लीनिक

ओसलर्स कोविड-19, कोल्ड एंड फ्लू क्लीनिक (Osler's COVID-19, Cold and Flu Clinic), बिना तय मुलाकात के आधार पर, कोविड-19 टेस्टिंग मापदंड को पूरा करने वाले रोगियों के साथ-साथ उन्हें देखना भी जारी रखेगा, जिन्होंने लक्षण हों और डॉक्टर को मिलना चाहते हों।

साउथ फ्लैचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में, ब्रैम्पटन के टेस्टिंग सेंटर और पील मेमोरियल सेंटर (Peel Memorial Centre) में कोविड-19, कोल्ड एंड फ्लू क्लिनिक के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.williamoslerhs.ca/coronavirus पर जाएं।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca